



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2017/ पौष 14, 1938

No. 21]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2017/PAUSA 14, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2017

**का.आ. 22(अ).—**सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा आयकर नियमावली, 1962 (उक्त नियमावली) के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ कर निर्धारण वर्ष 2016-2017 के आगे से संगठन टाटा मेडिकल सेंटर ट्रस्ट (पैन : AABTT 2222Q) के तत्वावधान में टाटा ट्रांसलेशनल केंसर रिसर्च सेंटर ('टीटीसीआरटी') को निम्नलिखित शर्तों के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था की श्रेणी में अनुमोदित किया गया है, अर्थात्:-

- (i) "वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था" 'टीटीसीआरटी' को अनुमोदित करने का एकमात्र उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान को आरंभ करना है;
  - (ii) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान स्वयं करेगा;
  - (iii) अनुमोदित संगठन 'टीटीसीआरटी' को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशि के संबंध में **अलग खाता बही** रखेगा जिसमें अनुसंधान करने के लिए प्रयुक्त राशि दर्शाई गई हो, उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप धारा (2) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार से अपनी खाता-बही की लेखा परीक्षा कराएगा और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप धारा (1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित एवं हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा;
  - (iv) अनुमोदित संगठन 'टीटीसीआरटी' को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त **दान तथा प्रयुक्त राशि का अलग विवरण** रखेगा और उपर्युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित ऐसे विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा।
2. केंद्र सरकार यह अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन:-
- (क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में उल्लिखित **लेखा बही नहीं रखेगा**; अथवा
  - (ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में उल्लिखित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेगा; अथवा

- (ग) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में उल्लिखित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त एवं प्रयुक्त दान का अपना विवरण प्रस्तुत नहीं करेगा; अथवा
- (घ) अपना अनुसंधान कार्य करना बंद कर देगा अथवा इसके अनुसंधान कार्य को ठीक नहीं पाया जाएगा; अथवा
- (ङ) उक्त नियमावली के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (iii) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगा तथा उनका पालन नहीं करेगा।

[अधिसूचना सं. 01/2017/फा. सं. 203/41/2015-आ.क.नि.-II]

अंकिता पांडे, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Revenue)

#### (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2017

**S.O. 22(E).**—It is hereby notified for general information that the organization TATA Translational Cancer Research Centre ('TTCRC') under the aegis of TATA Medical Centre Trust (PAN:- AABTT2222Q) has been approved by the Central Government for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 (said Act), read with Rules 5C and 5D of the Income-tax Rules, 1962 (said Rules), **from Assessment year 2016-2017 onwards** in the category of '**Scientific Research Association**', subject to the following conditions, namely:-

- (i) The sole objective of the approved 'Scientific Research Association' 'TTCRC' shall be to undertake scientific research;
  - (ii) The approved organization shall carry out scientific research by itself;
  - (iii) The approved organization shall maintain separate books of accounts for 'TTCRC' in respect of the sums received by it for scientific research, reflect therein the amounts used for carrying out research, get such books audited by an accountant as defined in the explanation to sub-section (2) of section 288 of the said Act and furnish the report of such audit duly signed and verified by such accountant to the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax having jurisdiction over the case, by the due date of furnishing the return of income under sub-section (1) of section 139 of the said Act;
  - (iv) The approved organization shall maintain a **separate statement of donations** received and amounts applied for scientific research for 'TTCRC' and a copy of such statement duly certified by the auditor shall accompany the report of audit referred to above.
2. The Central Government shall withdraw the approval if the approved organization:-
- (a) fails to maintain **separate books of accounts** referred to in sub-paragraph (iii) of paragraph 1; or
  - (b) fails to furnish its audit report referred to in sub-paragraph (iii) of paragraph 1; or
  - (c) fails to furnish its statement of the donations received and sums applied for scientific research referred to in sub-paragraph (iv) of paragraph 1; or
  - (d) ceases to carry on its research activities or its research activities are not found to be genuine; or
  - (e) ceases to conform to and comply with the provisions of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the said Act read with rules 5C and 5D of the said Rules.

[Notification No. 01/2017/F. No. 203/41/2015/ITA-II]

ANKITA PANDEY, Under Secy.